

# नकली कीटनाशक दवा फैक्ट्री का उद्देदन, महिला गिरफ्तार

हिन्दुस्तान टीम, बेगुसराय Newswrap

Mon, 07 Mar 2022 07:50 PM



मिसिकार टोला में पुलिस ने रविवार को नकली कीटनाशक दवा फैक्ट्री का उद्देदन किया है। इस मामले में एक महिला धंधेबाज को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया है। गिरफ्तार महिला की पहचान सुबोध साह की पत्नी शुरो देवी के रूप में की गई है।

यह जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने बताया कि नकली कीटनाशक दवा फेम वायर क्रॉप साइंस कम्पनी के नाम पर बनाई जा रही थी। इसकी गुप्त सूचना दवा कंपनी के जांच प्रमुख अशोक कुमार सिंह के द्वारा पुलिस को दी गई। इस सूचना पर उनके नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। साथ ही, गठित टीम के द्वारा कम्पनी के अधिकृत जांच प्रमुख की उपस्थिति में नकली कीटनाशक दवा बनाने के अड्डे पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां से नकली कीटनाशक दवा से भरी 1770 बोतल, 40 किलोग्राम दवा बनाने में उपयोग आने वाला पाउडर, दवा को सील पैक करने में प्रयुक्त होने वाली मशीन, रैपर के अलावा दवा रखे जाने वाले पाउडर का दर्जनों पाउच बरामद किया गया। मौके पर ही इस धंधे में लिप्त महिला धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध दवा कंपनी के जांच प्रमुख के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में नकली दवा से भरी बोतलों सहित अन्य सामग्रियों के मिलने से स्पष्ट होता है कि यह धंधा काफी दिनों से चल रहा है। वहीं, गिरफ्तार महिला ने पुलिस को बताया कि उसे रविवार को ही किसी अंजान शख्स ने सारी सामग्री उपलब्ध कराई थी। साथ ही, दवा भरने के नाम पर एक रूपए प्रति बोतल मजदूरी देने की बात कहकर चले गए थे। उसका नाम एवं पता मुझे नहीं मालूम है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जो नकली कीटनाशक दवा फैक्ट्री में बनाई जा रही थी उस दवा की बोतल की कीमत बाजार में करीब तीन सौ रूपए है।

Source: <https://www.livehindustan.com/bihar/begusarai/story-fake-pesticide-drug-factory-busted-woman-arrested-5977251.html>